



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259793
CG-DL-E-01012025-259793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1054]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 1054]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा.सं. 18-02/10753-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का गस्टप्प) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, ज्ञानेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, मकान संख्या 3-9-572, रोड संख्या 3, श्री बालाजी नगर, सहारा स्टेट्स के सामने, मंसूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद, जिला मेडक-500068 (तेलंगाना) तेलंगाना राज्य सरकार तथा तेलंगाना स्टेट नर्सिंग, मिडवाइव्स, ऑकजीलरी नर्स मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स कौंसिल द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा संख्या 359, डी-ब्लॉक, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद-500022, तेलंगाना को संबोधित नोटिस संख्या 18-02/10753-आईएनसी (52849) दिनांक 26.02.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति ज्ञानेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, मकान संख्या 3-9-572, रोड संख्या 3, श्री बालाजी नगर, सहारा स्टेट्स के सामने, मंसूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद, जिला मेडक-500068 (तेलंगाना) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, ज्ञानेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी ज्ञानेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् द्वारा इस मामले पर समग्र विचार किया गया है। दिनांक 05.08.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जिसका मतलब है कि संस्थान जीएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से ज्ञानेश्वरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, मकान संख्या 3-9-572, रोड संख्या 3, श्री बालाजी नगर, सहारा स्टेट्स के सामने, मंसूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद, जिला मेडक-500068 (तेलंगाना) से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल तेलंगाना राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./816/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F.No. 18-02/10753-INC: — In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Gnaneswari School of Nursing** situated at **H. No 3-9-572, Road No 3, Sri Balaji Nagar, Opp.- Saharastates, Mansoorabad, L.B. Nagar, Hyderabad, Distt. Medak 500068 Telangana** is recognized by State Government of Telangana and Telangana State Nurses Midwives Auxiliary Nurse Midwives & Health visitors Council to conduct **GNM** Course.

Whereas, a notice no. 18-02/10753INC (52849) dated **26/02/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Room No. 359, D- Block, Telangana Secretariat, Hyderabad – 500022, Telangana was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Gnaneswari School of Nursing** situated at **H. No 3-9-572, Road No 3, Sri Balaji Nagar, Opp.- Saharastates, Mansoorabad, L.B. Nagar, Hyderabad, Distt. Medak 500068 Telangana**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Gnaneswari School of Nursing**. Even the institution **Gnaneswari School of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 05/08/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **Gnaneswari School of Nursing** situated at **H. No 3-9-572, Road No 3, Sri Balaji Nagar, Opp.- Saharastates, Mansoorabad, L.B. Nagar, Hyderabad, Distt. Medak 500068 Telangana**. Shall be entitled to be registered only in the State of Hyderabad.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./816/2024-25]